

# **BITS Limited**

CIN: L72200DL1992PLC241971

Regd.Off.: 711, 7th Floor, New Delhi House 27, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001 • Tel.:011-4365 6567

Date: 01st September, 2024

• E-mail: bitsltd@gmail.com • Website: www.bits.net.in

To,
The Manager (Listing)
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400001

SUBJECT: DISCLOSURE UNDER REGULATION 30 & 47 OF SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015 - NOTICE PUBLISHED IN NEWSPAPER

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 & 47 read with Schedule III (Part A) to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of Notice published in Jansatta and Financial Express, newspaper(s) on 01<sup>st</sup> September, 2024, by the Company with respect to intimation of **32<sup>nd</sup> Annual General Meeting** of the Company and dispatch of Annual Report to the shareholders.

The above is for your kind information and records.

Thanking you, Yours Faithfully, For Bits Limited

Omprakash Ramashankar Pathak Managing Director DIN - 01428320

Mumbai Office: 23, Great Western Bldg., 1st Floor, 130/132, Shahid Bhagat Singh Road, Fort, Mumbai - 400 023, Phone: 022-4002 3237

#### **FE SUNDAY**

for shareholders and e-voting user manual for shareholders section of www.evoting.nsdl.co.in or call at toll free number 180 or send a request addressing Manager, National Securities Dep address the grievances connected with voting by electronic me

Date: September 01st, 2024 Place: New Delhi

ISF LIMITED

CIN: L74899DL1988PLC076648

Regd. Office: Plot No-13, KH. No. 33/7, Village Amber Sector-19, Dwarka, Delhi-11007

> E-mail ID: Info@isflimited.in Website: https: Phone No.: 0120-3226522, +91 91055

> > NOTICE OF 36" ANNUAL GENERAL MI E-VOTING INFORMATION AND BOOK C

Notice is hereby given that:

- The 36<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of members of t Saturday, 28th Day of September, 2024 at 04:00 P.M. throu or other audio visual means (OVAM), to transact the busine of AGM, In compliance with all applicable provision of Co rules made there under and Securities Exchange Boar Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MC 10/2022 dated December 28, 2022, General Circular No. read with Circular No. 20/2020 dated 5" May, 2020 read dated 8th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, dated 13th January, 2021, and Circular No. 19/2021 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") an Board of India ("SEBI") vide Circular SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2023/0164 dated: 06th October, 2/P/CIR/2023/4 dated: January 05th 2023 SEBI /HO/CFD/ 12th May, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 da SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated: 13th May, 201 PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October, 2023 (hereinalt SEBI Circulars) (hereinafter collectively referred to as S referred to as "SEBI Circulars") has permitted the holding Conferencing ('VC') / Other Audio Visual means ('OA presence of the members at a common venue. Members w through VC/OAVM or view the live webcast at www participating through the VC/OAVM facility shall be reckone under Section 103 of Companies Act, 2013.
- In compliance with the relevant circulars, the notice of the 3 financial statement for the financial year 2023-24, along w Report and other documents required to be attached there Members of that Company/ Depository Participant(s) on 31 for sending physical copies of the Notice of the AGM has MCA Circulars and the SEBI Circular. The aforesaid docu on the website of the company at https://isflimited.in/ and the website of Stock Exchange i.e., BSE Limited at www.li and Transfer agent of the Company i.e., www.skylinerta.com
- The Register of members and the Share Transfer Books 22nd September, 2024 to 28th September 2024 (both days Annual General Meeting.

#### Voting through Electronic Mode:

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the A, Companies (Management and Administration) Rules, 1 Company is providing its members the facility to cast the place other than the venue of the AGM ("remote e-voting")3 business may be transacted through such voting, on all the

consisting of Two Bedrooms, One Drawing Room, One Kitchen, Two Toilet Bathroom & Balcony Bounded By-North: Other's Flat/30 Ft Wide Road, East: Vacant Plot, South: Other's Property, West:

Place: Delhi Date: 01-09-2024

Sd/- Authorised Officer, For Hero Housing Finance Limited

#### BITS LIMITED

(CIN: L72200DL1992PLC241971) Regd. Office:- 711, 7th Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi-110001

Email: bitsltd@gmail.com, Website: http://www.bits.net.in Tel. No. 011-43656567

Notice of 32nd Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-Voting information

NOTICE is hereby given that the 32nd Annual General Meeting ('AGM') of the members of Bits Limited will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual means ("OAVM") on. Sunday, the 22nd September, 2024 at 01:30 P. M. to transact the Ordinary Business, as set out in the Notice of AGM. The Notice of the Meeting, Annual Report for the Financial Year ended March 31st, 2024 and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/RTA/Depository. The date of completion of email of the notices to the shareholders is 31st August, 2024.

In case you have not registered your email ID with the Companyl, Depository, please follow below instructions to register your email ID for obtaining Annual Report for Financial Year 2023-24 and login details for e-voting.

Physical Holding: Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, Mas Services Limited at info@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email

Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. Mas Services Limited at T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020) along with letter mentioning folio no. if not registered already.

Demat Holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declare by company.

These documents are also available on Company's website www.bits.net.in for download by the members. Notice is hereby given in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Company has offered e-voting facility for transacting all the business by National Securities Depository Limited (NSDL) through their portal www.evoting.nsdl.com to enable the members to cast their votes electronically. The remote e-voting period commences on Thursday, September 19th, 2024 (09:00 A.M.) and ends on Saturday, September 21st, 2024 (05:00 P.M.). No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Sunday, September 15th, 2024, may cast their vote by remote e-voting. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e Sunday, September 15th, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or RTA, Mas Services Limited at info@masserv.com. However, if the members are already registered with NSDL for remote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through evoting shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Ms. Pritika Nagi, Practicing Company Secretary (Membership No. 29544 & CP No. 11279), Proprietor M/s. Pritika Nagi & Associates, Company Secretaries, has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the letter sent with the Notice of the AGM. Any query/grievance relating to evoting may be addressed to Mr. Surendra Singh Tangar, Company Secretary and Compliance Officer, Bits Limited, 711, 7th Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi 110001 Phone: 011-43656567, Email: bitsltd@gmail.com. NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, September 16th, 2024 to Sunday, September 22nd, 2024 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the shareholders at the Annual General Meeting.

For Bits Limited

Surendra Singh Tangar | Place: New Delhi (Company Secretary & Compliance Officer) | Date: 31.08.2024

- o. The young right of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the company as on the cut-off date i.e. September 10, 2024. Any person who becomes the member of the company after dispatch of notice of AGM and holding shares as on cutoff date i.e., September 10, 2024, may obtain the login Id and Password by sending a request to evoting@nsdl.com. The facility for appointment of Proxies by Members will not be available since the AGM is being held through VC/OAVM. A person who is not a member as on the cut-off date should treat the Notice of AGM for information purpose
- 6. In case of any query or grievance pertaining to e-voting and attending the AGM through VC/OAVM, Members may contact NSDL, Trade World-A Wing, Kamala Mills Compound Lower Parel, Mumbai-400013. Email: evoting@nsdl.com, Toll-free no: 022-48867000. Further, Members may also contact with Mr. Prasad Madiwaie, Assistant General Manager, Bigshare Services Pvt. Ltd., RTA at prasadm@bigshareonline.com or on Telephone No.:022-62638621 For details relating to remote e-voting, joining the AGM through VC and e-Voting at the AGM, please refer to the Notice of the AGM. If have any queries relating to remote e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of https://www.evoting.nsdl.com
- 7. Mr. Sachin Agrawal, a Practicing Company Secretary (COP. FCS 5910), Proprietor, M/s. Agarwal S. & Associates, Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- 8. The results shall be declared as per regulation 44 of SEBI (LODR) Regulation 2015 read with the applicable provision of the Companies Act, 2013 from the conclusion of the meeting by posting the same on the website of the Company (www.propequity.in), and by filing with the NSE Ltd. It shall also be displayed on the Notice Board at the Registered Office of the Company.
- 9. A member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in process for those shareholders whose email ids are not registered:

- If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:
  - a) Click on "Forgot User Details/Password?" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
  - b) Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.
  - c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.com mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.
  - d) Members can also use the OTP (One Time Password) base login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.
- 2. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.
- 3. Now, you will have to click on "Login" button.
- 4. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

All shareholders/members attending AGM through VC or OAVM, who wish to speak or pose questions shall register themselves and send their queries, if any, on or before September 10, 2024 with their name, DP ID and Client ID/folio number, PAN, mobile number & number of shares and subject line should be Speaker Registration of P. E. Analytics Limited at the e-mail id of the Company i.e. samir@propequity.in

For P. E. Analytics Limited

Prachi Bansal Company Secretary M. No.: A73238

Place: New Delhi

# िर्निनिटेड

L1980PLC010492

एन ० १, हब औरओक , ई – 14 , ìोनी , नई दिल्ली– 110 0 2 4 . ਕਿ:info@magnumventures.in numventures.in

द्यतन के लिए सदस्यों को सूचना नीएम (वार्षिक आम बैठक) 28 सितंबर, 2024 मन्य ऑडियो–विजुअल साधनों (ओएवीएम) के त सरकार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय के अनुपालन में, बैठक की सूचना में निर्धारित ाली है।।

ार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल रही है जिनकी ई—मेल आईडी पहले से ही ने सभी सदस्यों को पहले की प्रथाओं के समान ही है।

टरी के साथ पंजीकृत है, तो वित्त वर्ष 2023—24 ण के साथ एजीएम की सूचना आपके पंजीकृत जिटरी, के साथ अपनी इंमेल आईडी पंजीकृत र्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने और ई—वोटिंग के लिए पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का

1 कंपनी के आरटीए यानी एमएएस सर्विसेज n औद्योगिक क्षेत्र फेस — II, नई दिल्ली — 110 टैब के तहत www.magnumventures.in पर सकता है और साथ ही आरटीए की वेबसाइट rv.com से भी डाउनलोड किया जा सकता है। ईमेल आईडी investor@masserv.com पर त प्रति के तहत बे cs\_mvl@cissahibabad.in

ारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल

ग सेवाओं के माध्यम से अपने शेयरधारकों को भाग लेने वाले शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक । एजीएम की सूचना में प्रदान किया जाएगा और उपलब्ध कराया जाएगा !

लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.bseindia.com और एनएसई लिमिटेड । वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग 3 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा।

> मेगनम वैंचर्स लिमिटेड के लिए हस्ता/-प्रदीपकुमारजैन प्रबंध-निदेशक

### ERTAINMENT LIMITED

9DL1997PLC088865 ≥ No-301 And 302 Lsc-7, Community Centre Delhi, South West Delhi -110070, India. aod.in, Email: cs@louchwood.in;

General Meeting ("AGM") of Touchwood uled to be held on Friday, 27th September cing ("VC") / Other Audio Visual Means lars issued by the Ministry of Corporate ndia ("Circulars") and in compliance with e "Act"), Secretarial Standard-2 and the ements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing he members to transact the Ordinary and

ic copies of the notice of the AGM along -2024 ("Annual Report") has been sent email addresses are registered with the Participants ("Depository") and Transfer d. The emailing of all Notices along with lay, August 31, 2024.

Rule 20 of the Companies (Managemen 44 of the SEBI Listing Regulations, the the remote e-voting facility to cast their ned in the AGM notice using electronic Depository Limited (NSDL). In case, the lity of electronic voting platform provided gh e-voting system during the AGM. The y, Practicing Company Secretaries, as in a fair and transparent manner. The

e i.e., 20th September, 2024 may cast their GM Notice through such remote e-voting. a member of the Company after sending toff date i.e., 20th September, 2024, may ding an email to cs@touchwood.in by ant ID number. However, if you are already Limited (NSDL) for e-voting, then you can sting your vote.

A.M. (IST), on Tuesday, 24th September rsday, 26° September, 2024. The remote d date and time and the remote e-voting

#### बिट्स लिमिटेड

(सीआईएन :- L72200DL1992PLC241971) पंजीकृत कार्यालय :- 711, ग्याँ तल, मई दिल्ली हाउस, 27, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली.-110001 ईमेल : bitsltd@gmail.com, वेबसाइट : http://www.bits.net.in, दूरमाष संख्या : 011-43656567

32वीं वार्षिक आम बैठक, बही समापन तथा रिमोट ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतदृद्वारा सूचित किया जाता है कि बिट्स लिमिटेड के सदस्यों की 32वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम' प्रिपद्वार पूजा जाता है। ज बिस्ता ताजिक के संदर्भ जा उद्धा जाविक जान बठक (एकाइन वीडियो कोन्क्रिसँग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माह्यमाँ (आएकीएम) के माह्यम से एविवार, 22 सितंबर, 2024 को अप. 01:30 बजे आयोजित की जाएगी, ताकि एजीएम की सूचना में बताए अनुसार सामान्य कारोबार किया जा सके। बैठक की सूचना, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट और रिमोट ई–वोटिंग विवरण उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज दिए गए हैं, जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। शेयरधारकों को सूचना के ईमेल भेजने का कार्य पूरा होने की तिथि 31 अगस्त, 2024 है।

यि आपने कंपनी /डिपॉपिजटरी के साथ अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है, तो कृपया वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने और ई-वोटिंग के लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपना ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए अनुदेशों का पालन करें। शीतिक धारिता : ईमेल पता पंजीकृत करने के लिए फोलियो नंबर, शेयरघारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे), पेन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे), पेन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार

(आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्केन की गई प्रति) प्रदान करते हुए कंपनी, मास सर्विसेज लिमिटेड के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को info@masserv.com पर एक अनुरोध भेजें।

कृपया अपना बैंक विवरण मूल रह चेक के साथ हमारे आरटीए (अर्थात् माल सर्विसेज लिमिटेड, टी–34, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज—II, नई दिल्ली—110020) को भेजें, यदि पहले से पंजीकृत नहीं

ाहताथ तल, आखला आधागक वात्र, फंजा-ा, पह ।विल्ला-नाक्यर्थण का मज, याद पहल से पंजाकृत नहां है तो साथ में फेलियों नंबर का उल्लेख करते हुए एत्र भी मेजें। अमीतिक चारिता: कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिमागी (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा दी गई सलाह के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करें। यदि कंपनी द्वारा घोषित किया जाता है तो एनएसीएच द्वारा लामांश मुगतान के लिए कृपया अपने डीपी के साथ अपना बैंक विवरण भी अपडेट करें।

ये प्रलेख सदस्यों द्वारा डाउनलोड के लिए कंपनी की वेबसाइट www.bits.net.in पर भी उपलब्ध हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रवंधन और प्रशासन) नियम, 2014 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के पोर्टल www.evoting.nsdl.com के माध्यम से सभी कारोबार के लेनदेन के लिए ई–वोटिंग की सुविधा का प्रस्ताव दिया है ताकि सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने वोट डाल सकें। रिमोट ई-वोटिंग अवधि गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 (प्रताःकाल 09:00 बजे) से आरंभ होकर शनिवार, 21 सितंबर, 2024 (सायंकाल 05:00 बजे) समाप्त होगी। उन्त तिथि एवं समय के उपरांत किसी भी ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के सदस्य, जो रविवार, 15 सितंबर, 2024 की कट-ऑफ तिथि को मौतिक रूप में या डीमेंट रूप में शेयर रखते हैं, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट डाल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, जो शेयर प्राप्त करता है और नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट—ऑफ तिथि अर्थात् रविवार, 15 सितंबर, 2024 के अनुसार शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर या RTA, मान सर्विसेंज लिमिटेड को info@masserv.com. पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांके, यदि सदस्य पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो वह अपना वोट डालने के लिए अपने मीजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-बोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार यदि सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर बोट कर दिया जाता है तो उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। एजीएम में ई-बोटिंग के माध्यम मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और जिन संदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट डाले हैं, वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। सुश्री प्रीतिका नागी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सदस्यता संख्या 28544 और सीपी संख्या 11279), प्रोपराइटर मैसर्स प्रीतिका नागी एवं एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज को ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिए स्कूटिनाइजर नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत स्क्रिटाजिया एजीएम की सूचना के साथ मेजे गए पत्र में निहित हैं। ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रस्त / शिकायत श्री सुरेंद्र सिंह तंगर, कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी, बिट्स लिमिटेड, 711, 7वाँ तल, नई दिल्ली हाउस, २७, बाराखंमा रोड, नई दिल्ली—110001, दूरमाष : 611—43656667, ईमेल : bitsltd@gmail.com को संबोधित किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 91, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 42 के अनुसार यह भी सूचना दी जाती है कि वार्षिक आम बैठक में शेयरघारकों का रिकॉर्ड लेने के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रिजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बहियाँ सोमवार. 16 सितंबर, 2024 से रिवेवार, 22 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

स्थान : नई दिल्ली दिनाँक : 31 अगस्त, 2024

हस्ता./ सुरेंद्र सिंह तंगर (कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी)

कृते बिट्स लिमिटेड

## स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड

सीआईएनः L51100DL2012PLC235573

पंजीकृत कार्यालयः बी-46, रिट्रीट अपार्टमेंट, 20, आई.पी. एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110092 वेबसाइटः www.stmpl.co.in । ईमेलः cs@stmpl.co.in

### 12वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एततद्वारा सूचित किया जाता है कि स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड (कंपनी) की 12वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 को सुबह 11:00 बजे आयोजित की जाएगी एमसीए सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को पूरा करने कें लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियों विजुअल माध्यम ("ओएवीएमर्") कें माध्यम से सदस्यों की आम जगह पर भौतिक उपस्थिति के बिना, क्रॉपीरेंट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी नवीनतम परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023, परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / पीओडी -2 / पी / सीआईआर / 2023/4 और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी –2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 हैं।

उपर्युक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, चूंकि कंपनी के सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट की मौतिक प्रतियां भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ 12वीं एजीएम की सूचना कंपनी के सभी सदस्यों को शनिवार 31 अगस्त, 2024 को ई-मेल के माध्यम से भेजी गई है, जिनका नाम शुक्रवार, 23 अगस्त, 2024 को कारोबारी घंटों के समापन पर सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देता है और जिनके ईमेल पते कंपनी / कंपनी रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के पास पंजीकृत हैं। इसके अलावा, उपर्युक्त सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.stmpl.co.in और स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी-उपलब्ध है।

बुक क्लोजरः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और स्थानांतरण पुस्तकें बुधवार, 18 सितंबर, 2024 से मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगी।

इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से मतदान – कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2015 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों

**"फामें ए"**सार्व**जनिक उद्घोषणा**[मारतीय दिवाला और शोधन असमता बोर्ड (स्वैध्धिक परिसमापन प्रक्रिया)
परिपन्न संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020, परिपन्न संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021,
एपन्न संख्या 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 और परिपन्न संख्या 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022
परिपन्न संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और सेबी परिपन्न संख्या
परिपन्न संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और सेबी परिपन्न संख्या
परिपन्न संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और सेबी परिपन्न संख्या
स्वर्ण प्रकार स्वर्ण प्रकार परिपन्न। पर जारी अन्य सभी प्रासंगिक परिपत्र।

पर जारी अन्य समा प्रासागक पारपत्र। कंपानी अपने सहस्या के वीर्वाध्याप्त के साध्या से बैठक में भाग लेने की सुविधा प्रदान करने तथा उपरोक्त परिपत्नों के अनुपालन में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैठक के दौरान मतदान करने की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है। कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखने वाले सदस्य, जिनमें वे सदस्य भी शामिल हैं जिन्हें कंपनी/आरटीए के पास ई-मेल आईडी उपलब्ध न होने के कारण कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति प्राप्त नहीं हुई है, वे भी एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों का पालन करके अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं।

सदस्य एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों का पालन करके इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (ईसीएस) या संदर्भ एजीएन का रहुवना ने 1दर गुए 1नदश का जावन करक इववद्वानक (बलवारण सवा (इसाएस) या किसी अपना आधादेश दे सकते हैं। उपरोक्त परिपन्नों के अनुसार, कंपनी वितीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक आम बैठक की सूचना सहित, उन सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेजेगी, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनीक्शास्टीए के साथ पंजीकृत है। इसलिए जिन सदस्यों ने अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोब है कि वे कंपनी से ई-संचार प्राप्त करने के लिए नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके क्यों गंजीकृत करना कें इसे पंजीकृत करवा लें:

पंजाकृत करवा लः भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से बुबुशेष है कि वे अपना ईमेल पता पंजीकृत करने के लिए फोलियो नंबर, सदस्य का नाम और पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व—सत्यापित प्रति जैसे आवश्यक

विवरणों के साथ secrétarial अप अंग अगुर आधार कार्ड का स्व-संत्यागत प्रांत जैसे आवश्यक विवरणों के साथ secrétarial@gypiiffotech.com पर ईमेल भेजें। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे ईमेल पते पंजीकृत करने के लिए अपने संबंधित डियॉजिटरी प्रतिमागी से संपर्क करें।

कंपनी की वार्षिके आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट https://gvpinfotech.com/aboutus / पर और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट https://www.nseindia.com / पर भी उपलब्ध कराई

हस्ता /-धवल मिस्त्री

दिनांकः ३१ अगस्त, २०२४ स्थानः अहमदाबाद

निदेशक (डीआईएन: 03411290)

## यूनिफिन्ज कैपिटल इंडिया लिभिटेड

े (पूर्व में श्री वर्स्टेक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) मीकृत कार्यालयः चावला हाउस, तीसरी मंजिल, 19, नेहरू प्लेस दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली. दिल्ली-110019, फोन: +91-11-49953454, ई-मेल: es:a lendingplate.com. वेबसाइट: https://www.unifinz.in

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली 41वीं वार्षिक आम बैठक के बारे में सूचना

एतदहारा सूचित किया जाता है कि यूनिफिन्ज कैंपिटल इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 41वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को अपराह 03:00 बजे ,कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों के साथ पठित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांके 8 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या परिपत्र संख्या 14/2020, 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या 17/2020, 5 मई, 2020 के परिपत्र संख्या 20/2020, 13 जनवरी, 2021 के परिपत्र संख्या 2/2021 और 5 मई, 2022 के परिपन्न संख्या 02/2022, 28 नवंबर, 2020 के परिपन्न संख्या 10/2022 और दिनांव 25 सितंबर, 2023 के परिपत्र सं. 09/2023 और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी(जिसे अगो सामूहिक रूप से "परिपन" कहा जाएगा) परिपन्न संख्या सेबी (एचओ /सीएफडी) /सीएमडी 1/सीआईआर /पी /2020/79 दिनांक 12 मई 2020 और परिपन्न संख्या सेबी /एचओ /सीएफडी सीएमडी 2/सीआईओर /पी /2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 और परिपन्न संख्या सेबी /एचओ /सीएफडी सीएमडी 2/सीआईओर /पी /2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 और परिपन्न संख्या सेबी/एमओ/सीएफडी /सीएमडी 2 /सीआईआर /पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022, परिपन्न प्रस्ता ने प्रका (पर्वज ) राज्यका 2 / ताजाकार / पा/ 2022/62 विनाव 13 मह. 2022, पार्यज संख्या सेवी / एवजो / सीएफडी / पीओडी-2/ पी / सीआईआर/ 2023/4 दिनांक 05 वनवरी, 2023 और पेरियन संख्या सेवी / एवजो सीएफडी / पीओडी-2/ पी / सीआईआर/ 2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 के अनुपालन में एजीएम के नोटिस में निर्धारित अनुसार कार्यवाही करने के लिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधन (आएबीएम) सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कंपनी-ने वीसी/औएबीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने, एजीएम से पहले रिमोट ई-(बोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में, 41वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनका ई-मेल पता कंपनी Onifinz.in, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे।

सदस्यों को एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के जरिए एजीएम नोटिस में बताए गए कारोबार पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट डॉलने का मौका मिलेगा। भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने कंपनी के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी जाएगी जिन सदस्यों ने कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, वे निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त कर सकते हैं:

भौतिक होल्डिंग :

कृपया कंपनी के रजिस्ट्रॉर और शैयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए),स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज(पी) लिमिटेड को admin@ skylinerta.com पर ई-मेल के माध्यम से एक अनुरोध पत्र भेजें, जिसमें फोलियो नंबर, सदस्य का नाम, शैयर सर्टिफिकेट (सामने और पीछे) की स्क्रैन की गई कॉपी, पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई कॉपी और सदस्य के पते का प्रमाण शामिल हो।

डीमैट होल्डिंग :

कृपया अपने डिपॉजिंटरी प्रतिमागियों (डीपी ) के साथ ई—मेल पता / वैंक खाता विवरण अपडेट करें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार यूनिफिन्ज़ कैपिटल इंडिया निलिमेटेड के लिए

हस्ता./-

स्थानः दिल्ली दिनांकः 01 सितंबर, 2024

ऋतु तोमर कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

## **Fratelli Vineyards Limited**

(formerly known as Tinna Trade Limited) Regd. Office: No 6, Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi, India, 110030 CIN: L11020DL2009PLC186397, Web: www.tinnatrade.in Email: investor.ttl@tinna.in, Tel: +91 011 28804483

#### Notice of 16th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 16th Annual General Meeting ("AGM") of Fratell Vineyards Limited [formerly known as Tinna Trade Limited] (CIN L11020DL2009PLC186397) will be held on Wednesday, September 25, 2024 at 11:30 A. M. P.M. through VC/OAVM to transact the businesses, as set forth in the Notice of the AGM which is to be sent by e-mail to all members of the